

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 149] नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 1972/आषाढ़ 8, 1894
No. 149] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 1972/ASADHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION
New Delhi, the 29th June 1972

No. F5(5)-W&M/72.—Subscriptions for the issues of 4½ per cent. Loan, 1979, 5 per cent. Loan, 1983 and 5½ per cent. Loan 2002 will be received from the 15th of July 1972. Subscriptions will be received in the form of cash or of securities of Government of India 4½ per cent Loan 1972 and 4 per cent Loan 1972 and the issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions in cash and conversions amount approximately to Rs. 350 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 18th of July 1972. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 350 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid Loans exceed the sum of Rs. 385 crores (Nominal) partial allotment will be made to the subscribers in cash. If partial allotment is made in respect of subscriptions received in cash, a proportionate refund will be made as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

4½ PER CENT LOAN 1979 ISSUED AT RS. 100.00 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 15TH JULY 1979.

3. Date of repayment.—The Loan will be repaid at par on the 15th of July 1979.

4. Issue Price.—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (nominal) of the Loan applied for.

5. **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of $4\frac{1}{2}$ per cent per annum from 15th July 1972. Interest will be paid half-yearly on the 15th January and 15th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 14 and 15 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5 PER CENT LOAN 1983 ISSUED AT RS. 99.50 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 15TH JULY 1983.

6. **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 15th of July 1983.

7. **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 99.50 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

8. **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 5 per cent per annum from 15th July 1972. Interest will be paid half-yearly on the 15th January and 15th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 14 and 15 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

5½ PER CENT LOAN 2002 ISSUED AT RS. 100.00 PER CENT AND REDEEMABLE AT PAR ON THE 15TH JULY 2002.

9. **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 15th of July 2002.

10. **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

11. **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of $5\frac{1}{2}$ per cent per annum from 15th July, 1972. Interest will be paid half-yearly on the 15th January and 15th July. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 14 and 15 below, be liable to tax under the Income tax Act, 1961.

CONVERSION TERMS

12. Securities of the $4\frac{1}{2}$ per cent Loan 1972 and 4 per cent Loan 1972 will be accepted for conversion into the new Loans at par. Interest at the rate of $4\frac{1}{2}$ per cent per annum and 4 per cent per annum on the securities of $4\frac{1}{2}$ per cent Loan 1972 and 4 per cent Loan 1972 respectively, tendered for conversion will be paid upto and inclusive of 14th July 1972 at the time of issue of new securities.

In the case of securities tendered for conversion into 5 per cent Loan 1983, the tenderer will receive in cash at the time of issue of new securities, the amount by which the value of the securities tendered exceeds the nearest lower multiple of the issue price, where the cash value of the securities tendered for conversion into 5 per cent Loan 1983 is not an exact multiple of issue price per cent of the new Loan applied for.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

13. **Place of payment of interest.**—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any treasury or sub-treasury elsewhere in India except the State of Jammu & Kashmir, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

14. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loans who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

15. Interest on all the Loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

16. The value of investments in the Loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax up to Rs. 1,50,000.

17. The securities will be issued in the form of:—

- (i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or
- (ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

18. **Applications for the Loans.**—Applications for the Loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

19. Applications will be received at:—

- (a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna;
- (b) branches of the subsidiary banks of the State Bank of India conducting Government treasury work except at Hyderabad; and
- (c) branches of the State Bank of India at other places in India.

20. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

21. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of loans which are acceptable for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the Bank concerned.

The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

- (i) in the case of Stock Certificates by signing the form of transfer deed on the reverse of the certificate before a witness,
- (ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below:—

“Pay to the President of India”

22. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the Loans tendered by them and bearing their stamp.

FORM OF APPLICATION

I/We.....herewith tender *Cash

(Full name(s) in Block letters)

Rs.....*Cheque for Rs.....*Securities of Government

of India 4½ per cent Loan 1972*/4 per cent Loan 1972* of the nominal value of Rs.....and request that securities of 4½ per cent Loan 1979*/5 per cent Loan 1983*/5½ per cent Loan 2002* of the nominal value of Rs.....may be issued to me/us in the form of Promissory Note(s)£

Stock Certificate

interest to be payable at.....

Signature.....

Name in full.....

(Block letters)

Address.....

Dated the July 1972.

NOTE: (1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words "Pay to the President of India" over the signature of the applicant, if they are in the form of Promissory Notes, and the transfer deed on the back should be signed by him before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate application should be made for each Loan, each form of subscription and for each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the new Loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signature.

(4) If the application is made in the name of a registered body, the under-noted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Articles of Association or a certified copy of the Rules and Regulations/Bye-Laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

*Delete what is not required.

£ Promissory Notes will be issued in denominations of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denominations required.

By Order of the President,
B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 29 जून, 1972

संख्या एक० 5 (5)-उत्प्रेषण एच/72.—4½ प्रतिशत व्याज वाले ऋण, 1979, 5 प्रतिशत व्याज वाले ऋण 1983 और 5½ प्रतिशत व्याज वाले ऋण 2002 के निर्गमों के लिये 15 जुलाई, 1972 से अभिदान लिये जाएंगे। अभिदान नकदी के रूप में या 4½ प्रतिशत व्याज वाले ऋण 1972 और 4 प्रतिशत व्याज वाले ऋण 1972 की प्रतिभूतियों के रूप में लिये जाएंगे और ज्यों ही यह ज्ञान पड़ेगा कि नकदी या रूपांतरण (कन्वर्शन) के रूप में अभिदानों की कुल रकम लगभग 350 करोड़ रुपया (अंकित मूल्य) हो चुकी है, त्यों ही निर्गम, बिना किसी सूचना के, बन्द कर दिये जाएंगे और हर हालत में ये निर्गम 18 जुलाई 1972 को काम बन्द होने के समय अवश्य बन्द हो जाएंगे। सरकार को 350 करोड़ रुपये की रकम से ऊपर 10 प्रतिशत तक अभिदान की रकम रख लेने का अधिकार होगा।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों के अभिदानों की कुल रकम 385 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) से बढ़ जाए, तो नकदी के रूप में अभिदान देने वालों के नाम, आंशिक आवंटन किया जाएगा। यदि नकदी के रूप में प्राप्त अभिदानों के सम्बन्ध में आंशिक आवंटन किया जाएगा तो आवंटन के बावजूद, अभिदान की रकम आनुपातिक रूप में सीमातिशोघ्र वापस कर दी जाएगी। इस प्रकार वापस की गयी रकमों पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 15 जुलाई, 1979 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 4½ प्रतिशत व्याज वाला ऋण 1979

3. वापसी की तारीख.—यह ऋण 15 जुलाई, 1979 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।

4. निर्गम मूल्य.—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिये सौ रुपये होगा।

5. व्याज.—इस ऋण पर 15 जुलाई 1972 से 4½ प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज दिया जाएगा। व्याज की रकम हर साल 15 जनवरी और 15 जुलाई को छमाही किस्तों में भुगतानी जाएगी। नीचे दिये गये पैरा 14 और 15 के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुए, व्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

99.50 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 15 जुलाई, 1983 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 5 प्रतिशत व्याज वाला ऋण 1983

6. वापसी की तारीख.—यह ऋण 15 जुलाई, 1983 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।

7. निर्गम मूल्य.—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक सौ रुपये (अंकित मूल्य) के लिये 99.50 रुपया होगा।

8. व्याज.—इस ऋण पर 15 जुलाई, 1972 से 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज दिया जाएगा। व्याज की रकम हर साल, 15 जनवरी और 15 जुलाई को छमाही किस्तों में भुगतानी जाएगी। नीचे दिये गये पैरा 14 और 15 के उपबन्धों के अन्तर्गत रहते हुए, व्याज की रकम पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 15 जुलाई, 2002 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला 5½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2002

9. वापसी की तारीख.—यह ऋण 15 जुलाई 2002 को सम-मूल्य पर चुका दिया जाएगा।

10. निर्गम मूल्य.—निर्गम मूल्य, आवेदित ऋण के प्रत्येक 100 रुपये (अंकित मूल्य) के लिये 100 रूपया होगा।

11. ब्याज.—इस ऋण पर 15 जुलाई 1972 से 5½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की रकम, हर साल 15 जनवरी और 15 जुलाई को छमाही किस्तों में अदा की जाएगी। नीचे दिये गये पैरा 14 और 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ब्याज की रकम पर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर लगेगा।

रूपान्तरण की शर्तें

12. 4½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1972 और 4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1972 की प्रतिभूतियां सममूल्य पर नए ऋणों में रूपान्तरण के लिए स्वीकार की जाएंगी। 4½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1972 और 4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1972 की जो प्रतिभूतियां रूपान्तरण के लिए दी जाएंगी उन पर, नयी प्रतिभूतियां जारी करने के समय, 14 जुलाई 1972 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल होगी, क्रमशः 4½ प्रतिशत वार्षिक और 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा।

5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1983 में रूपान्तरण के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों के मामले में, जहां 5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1983 में रूपान्तरण के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों का नकदी मूल्य आवेदित नए ऋण के निर्गम मूल्य प्रतिशत का ठीक गुणक नहीं होगा, वहां प्रस्तुतकर्ता को नई प्रतिभूतियां जारी करते समय उनी रकम नकद मिल जाएगी जो प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों के मूल्य और निर्गम मूल्य के निम्नलिखित गुणक के अंतर के बराबर होगी।

अनुपूरक उपबन्ध

13. ब्याज की अदायगी का स्थान.—इस ऋण का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कनकता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित सरकारी ऋण कार्यालयों में जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत में अन्यत्र किसी राजकोष या उपराजकोष में तथा जम्मू और श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के बैंक और लेखा कार्यालयों में चुकाया जायेगा।

14. ब्याज की अदायगी के समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) काटी गयी कर की रकम की वापसी, ऋण देने वाले वे व्यक्ति ले सकेंगे जिन पर कर न लगता हो या जिन पर उस दर से कम दर पर कर लगता हो, जिसके अनुसार कर काटा गया है।

ऋण देने वाला वह व्यक्ति जिस पर कर न लगता हो अथवा जिस पर निर्धारित दर से कम दर के अनुसार कर लगता हो, अपने जिले के आयकर अधिकारी को आवेदनपत्र देकर उससे ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेगा जिसके अनुसार उसे ब्याज की रकम, कर की रकम काटे बिना, या उस कम दर के अनुसार कर की रकम काटने के बाद मिल सकेंगी जो उस पर लागू होती है।

15. अन्य पिछली सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज सहित इस समय प्रामाणिक सभी ऋणों पर मिलने वाले ब्याज पर तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से होने वाली आय पर

आयकर नहीं लगेगा किन्तु इस तरह की कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष 3000 रुपये होगी और इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (ठ) के उपबन्ध भी लागू होंगे।

16. सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये पिछले निवेशों के मूल्य सहित इस समय ग्रामक्षित ऋणों में किये जाने वाले निवेशों का मूल्य और धन कर अधिनियम की धारा-5 में उल्लिखित अन्य निवेश भी 1,50,000 रुपये तक धन कर से मुक्त रहेंगे।

17. ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित रूपों में जारी की जाएंगी :—

- (i) स्टॉक, जिसके लिए आवेदन करने वालों को स्टॉक-प्रमाणपत्र दिये जाएंगे, अथवा
- (ii) वचन-पत्र (प्रामिसरी नोट)

यदि आवेदक अपनी पसन्द जाहिर न करेंगे तो प्रतिभूतियाँ वचन-पत्रों के रूप में जारी की जाएंगी।

18. ऋण के लिए आवेदन-पत्र.—ऋण के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र अनिवार्यतः सौ रुपये या उसके गुणकों के लिए दिये जाने चाहिए।

19. ऋण के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित स्थानों पर लिये जाएंगे :—

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलोर, बम्बई (फोर्ट और बायब्रला), कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना स्थित कार्यालय ;
- (ख) हैदराबाद शाखा को छोड़ कर, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की वे शाखाएं जो सरकारी राजकोष का कार्य करती हों, और
- (ग) भारत में अन्य स्थानों पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

20. आवेदन इस अधिमूचना के साथ संलग्न प्रपत्र (फार्म) के रूप में हो। या किसी ऐसे अन्य रूप में हो जिसमें मांगी गयी प्रतिभूतियों की रकम और उनका विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया हो, जहाँ से वह व्याज की रकम लेना चाहता हो।

21. आवेदन-पत्रों के साथ आवश्यक नकद रकम या बैंक अथवा रूपान्तरण के लिए स्वीकार्य प्रतिभूतियाँ भेजी जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उनके सहायक बैंकों में दिये जाने वाले बैंक सम्बद्ध बैंक के नाम होने चाहिए।

रूपान्तरण के लिए दी जाने वाली प्रतिभूतियाँ इस प्रकार सरकार के नाम अन्तरित की जानी चाहिए :—

- (i) स्टॉक-पत्रों के मामले में, किसी गवाह के सामने, स्टॉक-पत्र के पृष्ठ भाग पर अन्तरण-विलेख के प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर के ;
- (ii) वचन-पत्रों के मामले में, नीचे लिखे अनुसार उन्हें पृष्ठांकित कर के :—

“भारत के राष्ट्रपति को अदायगी करें”

22. मान्यता प्राप्त बैंकों और दलालों को ऋण के लिए दिये गये उन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में, जिन पर उनकी मुहर हो, किये गये आवंटनों पर 6 पैसे प्रति 100 रुपये (अंकित मूल्य) की दर से दलावी दी जायेगी।

आवेदन प्रपत्र

में/हम

(पूरा/पूरे नाम साफ अक्षरों में)

इसके साथ

रुपये नकद* रुपये का बैंक 4½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1972/4 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1972 की रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ** पेश करता हूँ/करते हैं, और प्रार्थना करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें 4½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1978** / 5 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 1983**/5½ प्रतिशत ब्याज वाले ऋण 2002** की रुपये के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ, स्टाक-पत्र (पत्रों)/बचन-पत्र (पत्रों)** के रूप में जारी की जाएं जिनका ब्याज पर देय हो।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम

(साफ अक्षरों में)

दिनांक जुलाई, 1972

पता

टिप्पणी.—(1) यदि स्थापत्य के लिए प्रस्तुत प्रतिभूतियाँ बचन-पत्रों के रूप में हों तो आवेदक के हस्ताक्षर के ऊपर “भारत के राष्ट्रपति को अदायगी करें” शब्द पृष्ठांकित किये जाने चाहिए और यदि वे स्टाक पत्रों के रूप में हों तो स्टाक पत्रों के पृष्ठभाग पर अन्तरण-बिलेख पर आवेदक द्वारा गवाह के सामने हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(2) अपेक्षित नये ऋण के हर तरह के अभिदान और हर तरह के प्रतिभूति-पत्र (स्टाक-पत्र या बचन-पत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र दिये जाने चाहिए।

(3) यदि आवेदक ने हस्ताक्षर के रूप में अंगूठे का निशान लगाया हो, तो उस पर दो गवाहों की तसदीक होनी चाहिए। गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ, उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाने चाहिए।

(4) यदि आवेदन-पत्र किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संस्था के नाम से दिया जाए तो निवेश सम्बन्धी आवेदन-पत्र के साथ नीचे लिखे दस्तावेज, यदि वे सरकारी ऋण कार्यालय में पहले से पंजीकृत न हों, लगा दिये जाने चाहिए :—

(i) पंजीकरण/निगमन का प्रमाण-पत्र,

(ii) निकाय/कम्पनी की बहिनियमावली और अंतनियमावली या नियमों तथा विनियमों/उप विधियों की प्रमाणित प्रति,

(iii) निकाय/कम्पनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कारबार करने के लिए प्राधिकृत किये गये व्यक्ति के हक में जारी किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रति।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाय।

**बचन-पत्र 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये के मूल्य वर्गों के जारी किये जाएंगे। तब पर उन ब्यास मूल्य-वर्गों का उल्लेख किया जाए, जिनकी आवश्यकता हो।

राष्ट्रपति के आदेश से

बी० विलियम, संयुक्त सचिव।